



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 श्रावण 1937 (श10)  
(सं0 पटना 950) पटना, शुक्रवार, 21 अगस्त 2015

---

सं0 3ए-2-वे०पु०-26/2014—6669/वि०  
वित्त विभाग

संकल्प

27 जुलाई 2015

**विषय :-**स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में।

फिटमेंट कमिटी तथा वेतन समिति द्वारा राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा अनुशंसित वेतनमान की अनुशंसा की गई है। राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के लिए AICTE द्वारा अनुशंसित वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के लिए AICTE विनियम-2010 द्वारा अनुशंसित वेतनमान के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं—

1. राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसोपरांत नियमित फार्मेसी अर्हताधारी नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रिंसिपल के अतिरिक्त तीन पदनाम होंगे— (i) असिस्टेंट प्रोफेसर, (ii) एसोसिएट प्रोफेसर और (iii) प्रोफेसर।
2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसोपरांत नियमित रूप से नियुक्त राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुरूप योग्यताधारी शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान संस्थान के पदों एवं पदनामों को अभातशिप विनियम-2010 की संस्तुत संरचना में अंकित पदों एवं पदनामों के अनुरूप परिवर्तित करते हुए निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाता है—

| क्र०सं० | वर्तमान पदनाम         | वर्तमान वेतनमान | पुनरीक्षित वेतनमान                      |          | नया पदनाम          |
|---------|-----------------------|-----------------|---|----------|--------------------|
|         |                       |                 | पे-बैंड                                 | ए०जी०पी० |                    |
| 1       | व्याख्याता            | PB-2+5400/-     | 15600-39100/-                           | 6000/-   | असिस्टेंट प्रोफेसर |
| 2       | सहायक प्राध्यापक      | PB-3+6600/-     | 37400-67000/-                           | 9000/-   | एसोसिएट प्रोफेसर   |
| 3       | प्राध्यापक (प्रोफेसर) | PB-3+6600/-     | 37400-67000/-                           | 10000/-  | प्रोफेसर           |
| 4       | प्राचार्य             | PB-3+7600/-     | 37400-67000/- +<br>(3000/- विशेष भत्ता) | 10000/-  | प्रिंसिपल          |

3. वैसे शिक्षक जो अभातशिप विनियम-2010 के अनुसार पदों की योग्यता धारित नहीं करते, उनपर अभातशिप द्वारा अनुशंसित वेतनमान लागू नहीं होगा तथा निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने तक वे फार्मोसी संस्थान में बने रहने के हकदार नहीं होंगे।

उपर्युक्त प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दयानिधान पाण्डेय,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 950-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>